



## प्रेस नोट थाना ताजगंज जनपद आगरा

**थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा लगातार 05 वर्ष से वाँछित चल रही रु0 20,000/- हजार की इनामी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार.....**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा चोरी , लूट आदि अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित / इनामी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में , क्षेत्राधिकारी सदर के सफल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी ताजगंज को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रमानुसार दिनांक 13.06.2021 को गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु व्यस्त थे । इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 635/16 धारा 302/504 भा0द0वि0 में वाँछित चल रही रु0 20,000 /- की इनामी अभियुक्ता स्वाती शर्मा गुडगांव में हयात गढी मोहल्ला राजेन्द्रपाल मानेश्वर दीपक के घर मे रह रही है, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार की जा सकती है ।

### पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही:-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये बताये स्थान पर पहुँच इनामिया अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा अभियुक्ता स्वाती शर्मा उपरोक्त पर पूर्व में 20,000/- हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

01. स्वाती शर्मा पत्नी भोलू उर्फ लोकेन्द्र सिंह निवासी सेमरी ताल थाना ताजगंज जनपद आगरा हाल पता दीपक का मकान हयातगढी मोहल्ला राजेन्द्रपाल मानेश्वर पुलिस चौकी 93 गुडगांव हरियाणा ।

### गिरफ्तार करने पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी थाना ताजगंज जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 मोहित सिंह थाना ताजगंज जनपद आगरा ।
03. है0का0 10 प्रतीक जादौन थाना ताजगंज जनपद आगरा ।
04. है0का0 72 बृजकुमार थाना ताजगंज जनपद आगरा ।
05. म0का0 5151 आकांक्षा सिंह थाना ताजगंज जनपद आगरा ।

**मीडिया सेल जनपद आगरा**

